



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 931]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2001/पौष 3, 1923

No. 931]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2001/PAUSA 3, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2001

सं. 43 (आर.ई.-2001)/1997-2002

**का.आ. 1258(अ).**—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (31-3-2001 तक किए संशोधन शामिल करते हुए) के पैराग्राफ 1.3 और 4.11 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित, निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 1997—2002 (31 अगस्त, 1998 तक किए गए संशोधन शामिल) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

अनुसूची 2 की तालिका-ख में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात हेतु रामतिल के बीज से सम्बंधित कोड सं. 1207 के सम्बन्ध में कालम 4 के अधीन क्रम सं. 2 पर उल्लिखित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) के नाम को उसी क्रम सं. पर संयुक्त राज्य अमेरिका को रामतिल के बीज के निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यम के रूप में "धारा बेजिटेबल ऑयल एण्ड फूड्स कम्पनी लिमिटेड (डीओएफसीओ)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/162/51/ए एम-99/पीसी-3]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2001

No. 43 (RE-2001)/1997—2002

**S.O. 1258 (E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Paragraphs 1.3 and 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendments made upto 31-3-2001), the Central Government hereby makes the following amendments in the "ITC(HS)

Classifications of Export and Import Items, 1997—2002 (incorporating amendments made upto 31st August, 1998)" and as amended from time to time :—

In respect of Code No. 1207 relating to Niger Seeds for export to USA in Table B of Schedule-2, the name of the 'National Dairy Development Board (NDDB)' appearing at S. No. 2 under Column 4 shall be substituted by 'Dhara Vegetable Oil and Foods Company Ltd., (DOFCO)', at the same S.No. as one of the State Trading Enterprises for export of Niger Seeds to USA.

2 This issues in public interest.

[F. No.01/91/162/51/AM-99/PC-III]

N. L. LAKHANPAL, Dy. Director General of Foreign Trade  
and ex-Officio Addl. Secy.